

प्रेस नोट दिनांक 26.06.2021

थाना कोतवाली जनपद बरेली।

थाना कोतवाली #bareillypolice द्वारा एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर देने वाले बैंक आफ बड़ौदा में तैनात सुरक्षा गार्ड/अभियुक्त को गिरफ्तार कर कब्जे से दो नाली बंदूक व 05 कारतूस जिन्दा 12 बोर व एक खोखा कारतूस बरामद कर जेल भेजा गया।

थाना कोतवाली पर दिनांक 25.06.21 को वादिनी प्रियंका राठौर पत्नी राकेश कुमार नि0 57 नार्थ रेलवे कलोनी थाना सुभाषनगर जिला बरेली द्वारा अभियुक्त केशव कुमार(गार्ड बैंक आफ बड़ौदा ब्रांच स्टेशन रोड़) पुत्र रामसवेक शर्मा नि0 सर्वोदय नगर बदायूं रोड थाना सुभाषनगर जनपद बरेली द्वारा वादिनी के पति को किसी बात को लेकर गोली मार देने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 221/2021 धारा 307 भादवि पंजीकृत कराया गया था। जिसमें श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा तत्काल अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया था। जिसके अनुक्रम में आज दिनांक थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियुक्त केशव उपरोक्त को दिनांक 26/06/2021 समय 12.17 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय घटना मे प्रयुक्त की गयी दो नाली बंदूक व 05 कारतूस जिन्दा 12 बोर व एक खोखा बरामद किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय पेश किया गया तथा आदेशानुसार मा0 न्यायलय जिला कारागार दाखिल किया गया।

बरामदगी:-

1. एक अदद बन्दूक दो नाली
2. 05 अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर
3. एक खोखा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम:- केशव कुमार पुत्र रामसवेक शर्मा नि0 सर्वोदय नगर बदायूं रोड थाना सुभाषनगर जनपद बरेली।

आपराधिक इतिहास:- मु0अ0सं0 221/2021 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली जिला बरेली।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0 नि0 श्री देवेन्द्र कुमार
2. हे0का0 584 संदीप शर्मा
3. का0 1121 रोहित कुमार
4. का0 1407 हरिओम

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली
जनपद बरेली।